



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072025-264478
CG-DL-E-09072025-264478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2968]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2025/आषाढ़ 17, 1947

No. 2968]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2025/ASHADHA 17, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

का.आ. 3035(अ).—जबकि मेसर्स ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, न्यू बस स्टैंड, रामपुरा तहसील, जिला - नीमच, मध्य प्रदेश - 458118, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “मध्य प्रदेश के नीमच जिले में ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को इसकी एमपी30 पंप स्टोरेज परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/42/2024-पीजी दिनांक 29 अप्रैल 2024 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “मध्य प्रदेश के नीमच जिले में ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को इसकी एमपी30 पंप स्टोरेज परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 10.07.2024, दैनिक भास्कर (हिंदी में) दिनांक 10.07.2024, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 31.08.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके बाद, मेसर्स ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड ने

22.05.2025 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत सरकार के शासकीय राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना “मध्य प्रदेश के नीमच जिले में ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को इसकी एमपी30 पंप स्टोरेज परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. मेसर्स ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड (जनरेशन स्विचयार्ड गांव खेमला, तहसील रामपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश में स्थित है) से मंदसौर पीएस (आईएसटीएस) तक 400 केवी डी/सी लाइन।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन मध्य प्रदेश के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र. सं.	गाँवों के नाम	तहसील / तालुका	जिला
1	खेमला, भीमपुरा, धामनिया, गुगलखेड़ा, मगरदा, जमालपुरा, सालरमाला, मजीरिया, चंद्रपुरा, अमरपुरा, नरवाली, गोपालपुरा, पिपल्दा, खेतपालिया, आनंदीपुरा, रामपुरा, दुधलाई, लसुडिया, बड़ोदिया, हरिपुरा, जच्चौद, रामखेड़ा, बांक्याखेड़ा, लालकाटन, बरामा, भगोरी, बासनिया, टोलखेड़ी, भरमपुरा, बसंतपुर, भमेसर, हिम्मतगढ़, हतुनिया, बरलाई, पालढा, सिंगाडिया पिपलिया, करारिया, डोरियाखेड़ी, वाच्छाखेड़ी, तलाऊ, मान्याखेड़ी, कड़ी बुजुर्ग, खेजड़ी	रामपुरा	नीमच
2	महेशपुरीया, बत्तीसडी, पावटी, सुंडी, लसुडीया, सेमली, नलवा, देवरी, कड़ी (कारी), भदवा, रतनपुरा, मोया, बड़कुआ, केशरपुरा, खेडाखुशलपुरा, देथल, आत्री बुजुर्ग, भीलखेड़ी, चपलाना, चपलानाचक, मोखमपुरा, खजूरी, खेमपुरा, प्रतापपुरा, जेटली	मनासा	नीमच
3	आंन्नीखुर्द, आबाखेड़ी, अडमालिया, लोडाखेड़ा, भीलखेड़ी, अरनीखेड़ा, मंशाखेड़ी, खडपाल्या, काल्याखेड़ी, काल्याखेड़ी कलां, मुज्याखेड़ी, बूढा, चिल्लोद पिपल्या, टकरावद, नापाखेड़ा, जोधा पिपलिया, नगरपिपलिया, हिंगोरिया, गर्गवद, सोहनगरा, तखतपुर, कचरिया अवाना, तलाव पिपल्या, दोरवाडा, रणायरा	मल्हारगढ़	मंदसौर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।

- vi. मेसर्स ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइन का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/42/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**ORDER**

New Delhi, the 7th July, 2025

S.O. 3035(E).—Whereas M/s Greenko MP01 IREP Private Limited having its registered office at First Floor, Commercial complex of New Bus stand, Rampura tehsil, Neemuch, Madhya Pradesh-458118, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Greenko MP01 IREP Private Limited for its MP30 Pumped Storage Project in Neemuch, Madhya Pradesh”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/42/2024-PG dated 29th April 2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to M/s. Greenko MP01 IREP Private Limited for its MP30 Pumped Storage Project in Neemuch, Madhya Pradesh”.

M/s Greenko MP01 IREP Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers, The Times of India (in English) dated 10.07.2024, Danik Bhaskar (in Hindi) dated 10.07.2024 and in Weekly Gazette of India dated 31.08.2024 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Greenko MP01 IREP Private Limited has submitted an affidavit dated 22.05.2025 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the Newspaper / official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to M/s Greenko MP01 IREP Private Limited for its MP30 Pumped Storage Project in Neemuch, Madhya Pradesh”. The following overhead line is covered under this scheme:

1. M/s. Greenko MP01 IREP Private Limited (Generation switchyard situated in Village Khemla, Tehsil Rampura, District Neemuch, Madhya Pradesh) to Mandsaur Pooling Station (ISTS Sub-station) 400kV D/c Line.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Madhya Pradesh:

S. No.	Village Names	Tehsil	District
1	Khemla, Bhimpura, Dhamniya, Gugalkhera, Magarda, Jamalpur, Salarmala, Majariya, Chandrapura, Amarpura, Narwali, Gopalpur, Pipalda, Khetpaliya, Anandpur, Rampura, Dudhlai, Lasuriya, Barodiya, Haripur, Jannaud, Ramkhera, Bankyakhera, Lalkatan, Barrama, Bhagori, Basniya, Tolkheri, Bharampur, Basantpur, Bhamesar, Himatgarh, Hatuniya, Barlai, Palra, Singariya Pipliya, Karariya, Doriyakheri, Wachchhakheri, Talau, Manyakheri, Kari Buzurg, Khejari	Rampura	Neemuch
2	Maheshpur, Batisri, Pawti, Sundi, Lasuriya, Semli, Nalwa, Dewri, Kari, Bhadwas, Ratanpur, Moya, Barkua, Kesharpur, Khera Kushalpur, Dethal, Antri Buzurg, Bhilkheri, Chaplana, Chaplanachak, Mokhampur, Khajuri, Khempur, Pratappur, Jetli	Manasa	Neemuch
3	Antri Khurd, Abakheri, Armaliya, Lorakhera, Bhilkheri, Arnikhera, Manchhakheri, Kharpaliya, Kaliyakheri, Kaliyakheri Kalan, Mujiyakheri, Burha, Chilod Pipliya, Takrawad, Napakhera, Jodha Pipliya, Nagar Pipliya, Hingoriya, Garawad, Sohangara, Takhatpur, Kachariya Awana, Talao Pipliya, Dorwari, Ranayara	Malhargarh	Mandsaur

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Greenko MP01 IREP Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Greenko MP01 IREP Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/42/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)